

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 8—नवम्बर 14, 2014 (कार्तिक 17, 1936)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 8—NOVEMBER 14, 2014 (KARTIKA 17, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

सं. ए-32013/2/2014-प्रशा.-I(वि.वि.)—विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति सहर्ष विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में सहायक विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषाएं शाखा) के पद पर कार्यरत श्रीमती निर्मला कृष्णामूर्ति को विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में वेतन बैंड रु. 15,600—39,100/— तथा ग्रेड वेतन रु. 7,600/— में 14 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक नियमित आधार पर उप विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषाएं शाखा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2014

सं. 23012/05/2013-अ.भा.से.-III—दिनांक 02 अगस्त, 2010 की अधिसूचना सं. 14015/21/2009-अभासे(I)—ख के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त डॉ. के. एस. पलानीसामी आईएएस (तमिलनाडु) को अपना नाम डॉ. के. एस. पलानीसामी

(Palanisami)से परिवर्तित कर डॉ. के. एस. पलानीसामी (Palanisamy) करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार, सभी सरकारी प्रयोजनों से उन्हें डॉ. के. एस. पलानीसामी (Palanisamy) के रूप में जाना जाएगा।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

दिनांक 30 सितम्बर 2014

सं. 14012/23/2005-अ.भा.से.-III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति असम-मेघालय राज्य संवर्ग के 1994 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री राजीव चंद्र जोशी को 04.09.1996 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्टूबर 2014

सं. 14015/03/2014-अ.भा.से.(I)-क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत असम-मेघालय संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा की पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत तथा 14.10.2014 को अनुमोदित दिनांक 18.07.2014 को तैयार की गई असम राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की वर्ष 2012 और 2013 की निम्नलिखित नामों वाली चयन सूचियों को विनियम 7(2) के अंतर्गत अधिसूचित करते हैं :—

वर्ष 2012 की चयन सूची (01.01.2012 से 31.12.2012 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	जन्मतिथि
1.*	मो. जियाउद्दीन अहमद	21.01.1953
2.#	मोलॉए बोरा (अनु. जा.)	28.08.1961
3.	थानेश्वर मालाकर (अनु. जा.)	02.01.1959
4.	साधना होजाई (अनु. जा.)	02.08.1958
5.	देबेश्वर मालाकर (अनु. जा.)	01.04.1960
6.	अंजन चक्रवर्ती	14.03.1958

*क्रम सं. 1 पर दिए गए नाम सूची में अनंतिम रूप से शामिल किए गए हैं जो उनके विरुद्ध लंबित दंडिक कार्यवाही की समाप्ति तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें दी गई सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के अध्यधीन होंगे।

#क्रम सं. 2 पर दिए गए नाम सूची में अनंतिम रूप से शामिल किए गए हैं जो उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही की समाप्ति तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें दी गई सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के अध्यधीन होंगे।

वर्ष 2013 की चयन सूची (01.01.2013 से 31.12.2013 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	जन्मतिथि
क.@*	मो. जियाउद्दीन अहमद	21.01.1953
ख.@\$	मोलॉए बोरा (अनु. जा.)	28.08.1961
1.	संजीव कुमार गोगोई	03.07.1959
2.	कुमुद चंद्र कालिता	01.12.1960
3.	श्रीमती कृष्णा गोहैन	25.12.1959
4.	गौरव बोथरा	24.11.1960
5.	तपन चंद्र शर्मा	02.01.1959
6.	श्रीमती रोशन आरा बेगम	17.01.1960

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	जन्मतिथि
7.	श्रीमती मोनीमाला फुकन बरठाकुर	02.09.1959
8.	शमशेर सिंह	13.02.1960
9.	गोपाल मोहन हजारीका	08.02.1959
10#	रूपक कुमार मजुमदार	20.11.1960
11	श्रीमती मोनालिसा गोस्वामी	15.08.1961

@क्रम सं. क और ख पर दिए गए नाम, भ.प्र.से. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1955 के विनियम 5(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार चयन सूची में अतिरिक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

*क्रम सं. क पर दिए गए नाम सूची में अनंतिम रूप से शामिल किए गए हैं जो उनके विरुद्ध लंबित दंडिक कार्यवाही की समाप्ति तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें दी गई सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के अध्यधीन होंगे।

\$क्रम सं. ख पर दिए गए नाम सूची में अनंतिम रूप से शामिल किए गए हैं जो उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही की समाप्ति तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें दी गई सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के अध्यधीन होंगे।

#क्रम सं. 10 पर दिए गए नाम सूची में अनंतिम रूप से शामिल किए गए हैं जो उस व्यक्ति के विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणी राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने के अध्यधीन होंगे।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/10/2013-अ.भा.से.(I)-ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, वर्ष 2012 तथा 2013 की चयन सूची हेतु राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर असम राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक, परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत असम-मेघालय संवर्ग आबंटित करते हैं :—

वर्ष 2012 की चयन सूची (01.01.2012 से 31.12.2012 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)
1.	थानेश्वर मालाकर (अनु. जा.)
2.	साधना होजाई (अनु. जा.)
3.	देवेश्वर मालाकर (अनु. जा.)
4.	अंजन चक्रवर्ती

वर्ष 2013 की चयन सूची (01.01.2013 से 31.12.2013 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)
1.	संजीव कुमार गोगोई
2.	कुमुद चंद्रा कालिता
3.	श्रीमती कृष्णा गोहैन
4.	गौरव बोथरा
5.	तपन चंद्र शर्मा
6.	श्रीमती रोशन आरा बेगम
7.	श्रीमती मोनीमाला फुकान बरठाकुर
8.	शमशेर सिंह

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)
9.	गोपाल मोहन हजारीका
10.	श्रीमती मोनालिसा गोस्वामी

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 अक्टूबर 2014

सं. ए-32013/8/2012-एन.टी.एच.—राष्ट्रपति, राष्ट्रीय परीक्षण शाला के निम्नलिखित वैज्ञानिकों एस डी को 37,400—67,000/— रुपए के वेतन बैंड-4 और 8,700/— रुपए के ग्रेड वेतन में उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीखों से निदेशक (ग्रेड-II) के पद पर प्रोन्नत करते हैं :—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	डॉ. अल्पना बिस्वास	19.09.2014 (पूर्वाह्न)
2.	श्री निर्मल सिंह	09.09.2014 (अपराह्न)
3.	डॉ. वाई. सी. निझावन	09.09.2014 (अपराह्न)
4.	श्री उत्तरायण सेठ	09.09.2014 (अपराह्न)

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन.टी.एच.)

दिनांक 28 अक्टूबर 2014

सं. ए-32013/04/2012-एन.टी.एच.—राष्ट्रपति, श्री रमेश अरोड़ा, वैज्ञानिक अधिकारी (मैकेनिकल) और श्री एम. आर. वाघ, वैज्ञानिक अधिकारी (मैकेनिकल) को 15,600—39,100/— रुपए के वेतन बैंड-3 और 5,400/— रुपए के ग्रेड वेतन में क्रमशः दिनांक 09.10.2014 (अपराह्न) और 09.10.2014 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय परीक्षण शाला में वैज्ञानिक एस. बी. (मैकेनिकल) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन.टी.एच.)

सं. ए-32013/01/2014-एन.टी.एच.—राष्ट्रपति, श्रीमती मेमोल बोबेन, वैज्ञानिक अधिकारी (फिजिकल सिविल) को 15,600—39,100/— रुपए के वेतन बैंड-3 और 5,400/— रुपए के ग्रेड वेतन में दिनांक 08.10.2014 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय परीक्षण शाला में वैज्ञानिक एस.बी. (फिजिकल-सिविल) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन.टी.एच.)

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 2014

सं. 38014/1/2013-विपणन-I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री डी. के. गुमास्ता, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से दिनांक 30.06.2014 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

मीना के. केरकेट्टा, अवर सचिव

दिनांक 30 सितम्बर 2014

सं. 38017/1/2013-विपणन-I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री राकेश सक्सेना, उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, शाखा प्रधान कार्यालय, नागपुर, दिनांक 31.08.2014 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

मीना के. केरकेट्टा, अवर सचिव

सं. 38017/1/2013—विपणन—I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री आर. के. मीना, उप कृषि विपणन सलाहकार (वर्ग—I) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, फरीदाबाद, दिनांक 30.06.2014 (अपराहन) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

मीना के. केरकेट्टा, अवर सचिव

सं. 38017/1/2013—विपणन—I—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से राष्ट्रपति, श्री एम. के. द्विवेदी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी को वेतन बैंड—3 (रुपए 15,600—39,100/—) + ग्रेड पे रुपए 6,600/— में दिनांक 19.08.2014 (पूर्वाहन) से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, उप कार्यालय, कानपुर में सहायक कृषि विपणन सलाहकार (वर्ग—I) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

मीना के. केरकेट्टा, अवर सचिव

सं. 38017/1/2013—विपणन—I—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से राष्ट्रपति, श्री सी. नन्दैय्या, वरिष्ठ विपणन अधिकारी को वेतन बैंड—3 (रुपए 15,600—39,100/—) + ग्रेड पे रुपए 6,600/— में दिनांक 19.08.2014 (पूर्वाहन) से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, फरीदाबाद में सहायक कृषि विपणन सलाहकार (वर्ग—I) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

मीना के. केरकेट्टा, अवर सचिव

सं. 38017/1/2013—विपणन—I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर डॉ. एस. सी. खुराना, उप कृषि विपणन सलाहकार, (वर्ग—II), विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, फरीदाबाद, दिनांक 31.07.2014 (अपराहन) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

मीना के. केरकेट्टा, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 2014

सं. 12-6/2012—प्रशा.—III—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति ने निम्न को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म में पे. बैंड—3 रुपए 15,600—39,100/— ग्रेड पे. रुपए 5,400/— के वेतनमान पर उनके नाम के आगे अंकित दिनांक से पशुचिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया है।

- | | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| 1. डॉ. महेश रमेश गोबडे | — | 22.07.2014 (पूर्वाहन) |
| 2. डॉ. संतोष एम. | — | 11.08.2014 (पूर्वाहन) |

धीरज भास्कर, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली—110011, दिनांक 12 मई 2014

सं. ए—19013/3/2014—प्रशा.—राष्ट्रपति, श्री अमित कुमार, आईएफएस (गुजरात : 1996) को 21 अप्रैल, 2014 के पूर्वाहन से 17 अगस्त, 2018 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हैं।

के. उन्नीकृष्णन, निदेशक

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(डिसेबिलिटी कार्य विभाग)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 11 सितम्बर 2014

सं. ए—12022/01/2014—स्थापना—I—राजभाषा विभाग के दिनांक 02.06.2014 के कार्यालय आदेश संख्या 2/1/2002 रा. भा.(सेवा) द्वारा, राजभाषा विभाग से इस विभाग में स्थानांतरण के परिणामस्वरूप, श्री राकेश कुमार, उप निदेशक (रा.भा.) को,

पे बैंड 15,600—39,100/— रुपए + ग्रेड पे 6,600/— रुपए में, 30 मई, 2014 के अपराहन से, डिसेबिलिटी कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में ले लिया गया है।

प्रदीप पुरोहित, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(डाक विभाग)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 17 जून 2013

सं. 1-2/2009-प्रशासन—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 मई, 2013 के का.ज्ञा.सं. 5/1/2013-सीएस-I(यू) के तहत सीएसएस के ग्रेड-I अर्थात् अवर सचिव ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति श्री मनमोहन मिश्रा (सीएसएल सं. 5645) को डाक विभाग में सीएसएस के ग्रेड-I अधिकारी (अवर सचिव) के रूप में 01.07.2006 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। तदनुसार, इस अधिकारी को का.ज्ञा.सं. 5/8/2009-सीएस-I (यू) दिनांक 07.01.2010 के अनुबंध में, इसमें निर्धारित शर्तों के अधीन क्रम सं. 119 पर श्री भीम सेन के नीचे तथा क्रम सं. 120 पर श्री जी. रे. के ऊपर क्र.सं. 119 (क) पर रखा गया है।

संजय मेहता, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

सं. 1-2/2009-प्रशासन—इस विभाग की दिनांक 14 जनवरी, 2013 की समसंख्यक अधिसूचना के तहत श्री मनमोहन मिश्रा के नाम को केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I अधिकारी (अवर सचिव) की 2009 की चयन सूची में शामिल कर लिया गया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 24 मई, 2013 के का.ज्ञा.सं. 5/1/2013-सी.एस.-I (यू) के अंतर्गत सूचित किया है कि वर्ष 2003 से 2008 तक के लिए सीएसएसएल में शामिल करने हेतु डीपीसी द्वारा उनके नाम पर भी विचार किया गया था। डीपीसी के निष्कर्षों को एक मुहरबन्द लिफाफे में रखा गया था क्योंकि उनके विरुद्ध प्रारंभ की गई कार्यवाही लंबित थी। आरोपों को हटा लिए जाने के पश्चात मुहरबन्द लिफाफों को खोला गया तथा वर्ष 2006 के लिए सीएसएस के अवर सचिव की चयन सूची में श्री मिश्रा के नाम को शामिल करने के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। उनके नाम को अवर सचिव की चयन सूची 2006 में शामिल करने संबंधी अधिसूचना दिनांक 17.06.2013 की समसंख्यक अधिसूचना के तहत जारी कर दी गई है।

2. उपर्युक्त के मद्देनजर यूएसएसएल 2009 की सूची से श्री मनमोहन मिश्रा के नाम को एतद्वारा हटाया जाता है।

संजय मेहता, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 23 जून 2013

सं. 3-7/2011-प्रशासन—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/2/2013-सीएस-II (ए) के तहत सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के लिए चयन सूची वर्ष 2013 में समावेशन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, विद्युत मंत्रालय में सीएसएसएस के नियमित निजी सचिव, श्री धमेन्द्र कुमार को सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के रूप में 15,600—39,100/— रु. + ग्रेड वेतन 6,600/— रु. के वेतन बैंड-3 में 12.06.2014 (पूर्वाह्न) से डाक विभाग में नियुक्त करते हैं।

विजयलक्ष्मी भारद्वाज, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

सं. ईआरबी-I/2007/10/4—रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.09.2014 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए हैं :—

- | | | |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| (i) | श्री एम सुरेश, | अपर सदस्य (सिगनल) |
| (ii) | श्री ए. गोपालकृष्णन, | वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव |
| (iii) | श्री बन्त राम दड़ोच, | संयुक्त निदेशक |
| (iv) | श्रीमती लता थवानी, | अनुभाग अधिकारी |
| (v) | श्रीमती लिलम्मा जिम्मी, | अनुभाग अधिकारी |

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 20 अक्टूबर 2014

सं. ईआरबी-1/2014/2/61—राष्ट्रपति जी, श्रीमती राजलक्ष्मी रवि कुमार, भारतीय रेल लेखा सेवा, महानिदेशक, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी को 14.10.2014 के अपराहन से वित्तीय आयुक्त, रेलें एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

सं. ए-38011/04/2014-ई-II(बी)—सेवा निवृत्ति की आयु पूरी करने पर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली में साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' के अधिकारी श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, तकनीक अधिकारी, दिनांक 30.09.2014 (अपराहन) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

हरि राम मीणा, अवर सचिव

नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 सितम्बर 2014

सं. 6/286/96-प्रशा.1—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस मंत्रालय के श्री एस. एस. बेदी, वैज्ञानिक 'एफ' दिनांक 30.09.2014 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 अक्टूबर 2014

सं. 6/157/88-प्रशा.1—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस मंत्रालय के श्री अनिल कुमार वारशेनय, वैज्ञानिक 'एफ' दिनांक 30.09.2014 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 14th October 2014

No.A.32013/2/2014-Admn.I (LD)—On the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Smt. Nirmala Krishnamoorthy, Assistant Legislative Counsel (Regional Languages Branch) in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law & Justice to the post of Deputy Legislative Counsel (Regional Languages Branch) in the Pay-Band-3 of Rs.15600-39100/- plus Grade Pay of Rs.7600/- in the said Wing of the Legislative Department, Ministry of Law & Justice on regular basis w.e.f. the forenoon of 14th October, 2014 and until further orders.

B.M. SHARMA, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 29th September 2014

No. 23012/05/2013-AIS-III—Dr.K. S. Palanisami, IAS(TN) appointed to the Indian Administrative Service vide Notification No.14015/21/2009-AIS(I)-B dated 2nd August, 2010, has been permitted to change his name from Dr. K. S. Palanisami to Dr. K. S.Palanisamy. He will accordingly be recognised as Dr. K. S.Palanisamy for all official purposes.

NAVNEET MISHRA, Under Secy.

The 30th September 2014

No. 14012/23/2005-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri. Rajeev Chandra Joshi, member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Assam -Meghalaya of 1994 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 04.09.1996.

NAVNEET MISRA, Under Secy.

New Delhi, the 24th October 2014

No. 14015/03/2014-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select Lists of State Civil Service officers of Assam containing the following names prepared on 18.7.2014 under Regulation 5(5) and approved on 14.10.2014, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Assam Segment of Joint Assam-Meghalaya cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select Lists of 2012 and 2013 :-

Select List of 2012(Against vacancies arisen between 1.1.2012 to 31.12. 2012)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.*	Md. Jiauddin Ahmed	21.01.1953
2.#	Moloy Bora (SC)	28.08.1961
3	Thaneswar Malakar (SC)	02.01.1959
4.	Sadhana Hojai (ST)	02.08.1958
5.	Debeswar Malakar (SC)	01.04.1960
6.	Anjan Chakravarty	14.03.1958

* The name at Sl. No. 1 has been included in the list provisionally subject to clearance in the criminal proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

The name at Sl. No. 2 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

Select List of 2013(Against vacancies arisen between 1.1.2013 to 31.12. 2013)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
0A.@*	Md. Jiauddin Ahmed	21.01.1953
0B@\$	Moloy Bora (SC)	28.08.1961
1	Sanjeeb Kr. Gogoi	03.07.1959
2.	Kumud Chandra Kalita	01.12.1960
3.	Smt. Krishna Gohain	25.12.1959
4.	Gaurav Bothra	24.11.1960
5	Tapan Ch. Sarma	02.01.1959
6	Smt. Roshan Ara Begum	17.01.1960
7	Smt. Monimala Phukan Barthakur	02.09.1959
8	Shamsher Singh	13.02.1960
9	Gokul Mohan Hazarika	08.02.1959
10#	Rupak Kr. Mazumder	20.11.1960
11	Smt. Monalisa Goswami	15.08.1961

@ The name at Sl. No. 0A and 0B have been included in addition to the size of the Select List as per 2nd proviso to Regulation 5(5) of the IAS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

* The name at Sl. No. 0A has been included in the list provisionally subject to clearance in the criminal proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

\$ The name at Sl. No. 0B has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

The name at Sl. No. 10 has been included in the list provisionally subject to expunction of adverse remarks against him by the State Government.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/03/2014-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Assam to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select Lists of 2012 and 2013, on probation until further orders and to allocate them to the Assam-Meghalaya Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List of 2012 (Against vacancies arisen between 1.1.2012 to 31.12. 2012)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)
1.	Thaneswar Malakar (SC)
2.	Sadhana Hojai (ST)
3.	Debeswar Malakar (SC)
4.	Anjan Chakravarty

Select List of 2013 (Against vacancies arisen between 1.1.2013 to 31.12. 2013)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)
1.	Sanjeeb Kr. Gogoi
2.	Kumud Chandra Kalita
3.	Smt. Krishna Gohain
4.	Gaurav Bothra
5.	Tapan Ch. Sarma
6.	Smt. Roshan Ara Begum
7.	Smt. Monimala Phukan Barthakur
8.	Shamsher Singh
9.	Gokul Mohan Hazarika
10.	Smt. Monalisa Goswami

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,
FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
[DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS]

New Delhi – 110 011, the 8th October 2014

No.A-32013/8/2012-NTH—The President is pleased to promote the following Scientist SD to the post of Director (Grade II) in the National Test House in the Pay Band 4 of Rs.37400-67000 with Grade pay of Rs. 8700/- with effect from the date mentioned against them :-

Sl.No.	Name of the Officer	Date of taking over charge
1	Dr. Alpana Biswas	19.09.2014 (F/N)
2	Shri Nirmal Singh	09.09.2014 (A/N)
3.	Dr. Y.C. Nijhawan	09.09.2014 (A/N)
4.	Shri Uttarayan Sett	09.09.2014 (A/N)

D.K.SONKER, Dy. Dir. (NTH)

The 28th October 2014

No.A.32013/04/2012-NTH—The President is pleased to promote Shri Ramesh Arora, Scientific Officer (Mechanical) and Shri M.R. Wagh, Scientific Officer (Mechanical) to the post of Scientist SB (Mechanical) in the National Test House in the Pay band 3 of Rs.15600-39100 + Grade Pay of Rs. 5400/- with effect from 09.10.2014(A/N) and 09.10.2014(F/N) respectively.

D.K.SONKER, Dy. Dir. (NTH)

No.A.32013/01/2014-NTH—The President is pleased to promote Smt. Maymole Boben, Scientific Officer (Physical Civil) to the post of Scientist SB (Physical-Civil) in the National Test House in the Pay band 3 of Rs.15600-39100 + Grade Pay of Rs. 5400/- with effect from 08.10.2014(A/N).

D.K.SONKER, Dy. Dir. (NTH)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 18th September 2014

No. 38017/1/2013-M.I.—Consequent on attaining the age of superannuation, Shri D.K. Gumasta, Senior Marketing Officer of Directorate of Marketing and Inspection, Regional Office, Bhopal has been retired from Government service w.e.f. 30.06.2014(Afternoon).

MEENA K. KERKETTA, Under Secy.

The 30th September 2014

No. 38017/1/2013-M.I.—On attaining the age of superannuation, Dr. S.C. Khurana, Deputy Agricultural Marketing Adviser(Group III) of Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, Faridabad has retired from Government service on. 31.07.2014(afternoon).

MEENA K. KERKETTA, Under Secy.

No. 38017/1/2013-M.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Rakesh Saxena, Deputy Agricultural Marketing Adviser of Directorate of Marketing and Inspection, Branch Head Office, Nagpur has retired from Government service on. 31.08.2014(afternoon).

MEENA K. KERKETTA, Under Secy.

No. 38017/1/2013-M.I.—On attaining the age of superannuation, Shri R.K. Meena, Deputy Agricultural Marketing Adviser of Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, Faridabad has retired from Government service on 30.06.2014(afternoon).

MEENA K. KERKETTA, Under Secy.

No. 38017/1/2013-M.I.—Consequent on the recommendations of Departmental Promotion Committee (Group 'A') and with the approval of competent authority, the President is pleased to appoint Shri M.K. Dwivedi, as Assistant Agricultural Marketing Adviser(Group-1) in Pay Band-3, Rs.15,600-39100 + Grade Pay of Rs. 6600/- on promotion in the Directorate of Marketing and Inspection, Sub-Office, Kanpur, with effect from 19.08.2014 (forenoon).

MEENA K. KERKETTA, Under Secy.

No. 38017/1/2013-M.I.—Consequent on the recommendations of Departmental Promotion Committee (Group 'A') and with the approval of competent authority, the President is pleased to appoint Shri C. Nandaiah, as Assistant Agricultural Marketing Adviser(Group-1) in Pay Band-3, Rs.15,600-39100 + Grade Pay of Rs. 6600/- on promotion in the Directorate of Marketing and Inspection, Sub-Office, Kanpur, with effect from 19.08.2014 (forenoon).

MEENA K. KERKETTA, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

New Delhi, the 18th September 2014

No.12-6/2012-Admn.III—On the recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint the following as Veterinary Officers in the scale of pay of Pay Band-3 Rs.15,600-39,100 with grade pay of Rs.5400/- in Central Cattle Breeding Farms under the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries w.e.f. the dates indicated against their names:

- | | | | |
|----|--------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Dr. Mahesh Ramesh Gobade | - | 22.07.2014 (Forenoon) |
| 2. | Dr. Santhosh M. | - | 11.08.2014 (Forenoon) |

DHEERAJ BHASKAR, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

New Delhi, the 12th May 2014

No. A. 19013/3/2014-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Amit Kumar, IFS (Guj:1996) as Director in the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development on deputation basis with effect from the 21st April, 2014 for a period upto 17th August, 2018 or until further orders, whichever is earlier.

K.UNNIKRISHNAN, Dir.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(DEPARTMENT OF DISABILITY AFFAIRS)

New Delhi-110001, the 11th September 2014

No.A-12022/01/2014-Estt.—Consequent upon his transfer from Department of Official Language to this department vide Department of Official Language's Office Order No. 2-1/2002-OL(S) dated 02.06.2014, Shri Rakesh Kumar, Deputy Director (OL) is taken on strength in the Department of Disability Affairs, Ministry of Social Justice and Empowerment in the PB -3 of Rs. 15,600-39,100/- + Grade Pay Rs. 6600/-, with effect from the afternoon of 30th May 2014.

PRADEEP PUROHIT, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 17th June 2013

No.1-2/2009-Admn.—Consequent upon inclusion in the Select List of Grade I of CSS i.e Under Secretary Grade for the year 2006 vide Department of Personnel and Training's O.M No. 5/1/2013-CS.I (U) dated 24th May 2013, the President is pleased to appoint Shri Manmohan Mishra (CSL No. 5645), as Grade I officer (US) of CSS in the Department of Posts on regular basis w.e.f 01.07.2006. Accordingly, the officer has been placed at S.No. 119 (A), below Shri Bhim Sen at S.No. 119 and above Shri G.Ray at S.No. 120 in the annexure to O.M No. 5/8/2009-CS.I (U) dated 07.01.2010, subject to the conditions prescribed therein.

SANJAY MEHTA, Asstt. Dir. Genl. (Admn.)

No.1-2/2009-Admn.—The name of Shri Manmohan Mishra had been included in the Select List of 2009 of Grade I Officer (US) of CSS vide this Department's notification of even no. dated 14th January 2013. Department of Personnel and Training vide their O.M No. 5/1/2013-CS.I (U) dated 24th May 2013 have conveyed that his name had also been considered by DPC for inclusion in USSSLs for the years 2003 to 2008. The findings of DPC were placed in sealed cover as departmental proceedings initiated against him were pending. Consequent upon dropping of charges the sealed covers were opened and approval of the President has been obtained for inclusion of the name of Shri Mishra in the Select List of Under Secretary of CSS for the year 2006. The notification for inclusion of his name in US Select List 2006 has been issued vide Notification of even no. dated 17.06.2013.

2. In view of the above, the name of Shri Manmohan Mishra is hereby deleted from the list of USSSL 2009.

SANJAY MEHTA, Asstt. Dir. Genl. (Admn.)

New Delhi – 110001, the 23rd June 2014

No. 3–7/2011–Admn.—Consequent upon inclusion in the Select List Year 2013 for the Principal Private Secretary of CSSS vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/2/2013- CS-II (A) dated 30th April, 2014, the President is pleased to appoint Shri Dharmender Kumar, a regular PS of CSSS in the Ministry of Power as Principal Private Secretary of CSSS in Department of Posts with effect from 12.06.2014(F/N) in the Pay Band-3 of Rs. 15600-39100+Grade Pay of Rs. 6600/-.

VIJAYALAKSHMI BHARADWAJ, Asst. Dir. Genl. (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi-110001, the 15th October 2014

No. ERB-I/2007/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30.09.2014:-

- | | | |
|------|------------------------|----------------------------------|
| i) | Shri M.Suresh, | Additional Member(Signal). |
| ii) | Shri A.Gopalakrishnan, | Sr. Principal Private Secretary. |
| iii) | Shri Bant Ram Dadoch, | Joint Director. |
| iv) | Smt. Lata Thawani, | Section Officer. |
| v) | Smt. Leelamma Jimmy, | Section Officer. |

P.C.GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

The 20th October 2014

No. ERB-I/2014/2/61—The President is pleased to appoint Smt. Rajalakshmi Ravi Kumar, IRAS, Director General, National Academy of Indian Railways as Financial Commissioner (Railways) and ex-officio Secretary to the Government of India w.e.f. afternoon of 14.10.2014.

P.C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 20th October 2014

No. A-38011/4/2014-Estt.II(B)—On attaining the age of superannuation, Shri Surender Pal Verma, Technical Officer, an officer of the General Central Service, Group 'B' Gazetted in the Ministry of Road Transport and Highways has retired from government service on 30.09.2014 (AN).

H. R. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY

New Delhi, the 30th September 2014

No. 6/286/96-Admn.I—On attaining the age of superannuation, Shri S. S. Bedi, Scientist 'F' in this Ministry retired from Government service with effect from 30th September, 2014 (AN).

SURESH KUMAR, Under Secy.

The 1st October 2014

No. 6/157/88-Admn.I : On attaining the age of superannuation, Shri A. K. Varshney, Scientist 'F' in this Ministry retired from Government service with effect from 30th September, 2014 (AN).

SURESH KUMAR, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in